



Literacy for a Billion

Movie: Bandini

Year: 1963

Song: O Panchi Pyaare

Lyricist: Shailendra

ओ पंछी प्यारे  
साँझ सकारे  
बोले तू कौन सी बोली  
बता रे  
बोले तू कौन सी बोली

ओ पंछी प्यारे  
साँझ सकारे  
बोले तू कौन सी बोली  
बता रे  
बोले तू कौन सी बोली

मैं तो पंछी  
पिंजरे की मैना  
पँख मेरे बेकार  
बीच हमारे  
सात रे सागर  
कैसे चलूँ उस पार  
कैसे चलूँ उस पार

ओ पंछी प्यारे  
साँझ सकारे  
बोले तू कौन सी बोली  
बता रे  
बोले तू कौन सी बोली

फागुन महीना  
फूली बगिया  
आम झरे अमराई  
मैं खिड़की से चुप चुप देखूँ  
ऋतु बसंत की आई  
ऋतु बसंत की आई

ओ पंछी प्यारे  
साँझ सकारे  
बोले तू कौन सी बोली  
बता रे  
बोले तू कौन सी बोली

*Disclaimer: PlanetRead does not own these lyrics and is not using them for any commercial purpose. For over 20 years, PlanetRead has been subtitling Bollywood songs for mass literacy. These lyrics are being offered as part of PlanetRead's literacy development initiative.*

*PlanetRead is a tax-exempt, not-for-profit: 501(c) (3) in the United States and 80(G) in India.*